

जीवन अमृत के फायदे

- बी.पी. (लो/हाई)
- शुगर / डायबिटीज
- अवसरवादिता
- पैरालेस
- अस्थमा
- कॉलेस्ट्रॉल
- हृदय रोग
- अंगों में झुनझुनी

- एलर्जी
- माइग्रेन
- सैतिका
- शुक्राणुओं की संख्या शून्य होना
- भगंदर
- कफ/त्वचा संबंधी विकार
- मस्तिष्क के रोग
- पित्त संबंधी रोग



- ब्लॉकेज/मानसिक आजार
- सोरायसीस
- थायरॉइड
- पीसीओडी रोग
- मासिक धर्म संबंधी रोग
- हार्मोनल असंतुलन
- लाल परत
- सफ्रेद परत

- थैली पर सूजन और संक्रमण
- ट्यूब ब्लॉक
- डायलिसिस रोग
- कैंसर प्रथम/द्वितीय चरण



संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण सुरक्षा

इम्यूनिटी बढ़ाए • ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाए • शरीर को डिटॉक्स करे • संपूर्ण स्वास्थ्य का रखे ख्याल

जीवन अमृत जूस (Health Guard)

Complete Product Information

उत्पाद का परिचय

जीवन अमृत जूस (Health Guard) एक प्राकृतिक हर्बल न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्रिंक है, जिसे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य (Holistic Wellness) को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इसमें विभिन्न फलों, जड़ी-बूटियों, सुपरफूड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का संतुलित मिश्रण है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है।

यह उत्पाद विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो

- अपनी इम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं
- ऊर्जा और स्टैमिना सुधारना चाहते हैं
- और एक प्राकृतिक हेल्थ सॉल्यूशन अपनाना चाहते हैं

उत्पाद की विशेषताएँ

- 100% प्राकृतिक तत्वों से निर्मित
- बिना किसी हानिकारक केमिकल के
- मल्टी-सुपरफूड कॉम्बिनेशन
- दैनिक उपयोग के लिए सुरक्षित
- सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त



मुख्य फायदे

1. इम्युनिटी बूस्टर

यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

2. ऊर्जा और स्टैमिना

शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे थकान, कमजोरी और सुस्ती कम होती है।

3. मानसिक स्वास्थ्य

तनाव, चिंता और नींद की समस्याओं को कम करने में सहायक।

4. हृदय स्वास्थ्य

दिल को स्वस्थ रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है।

5. रक्त शुद्धिकरण

खून को साफ करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है।

6. पाचन सुधार

गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है।

7. डिटॉक्सिफिकेशन

शरीर से विषैले तत्व (toxins) बाहर निकालता है।

8. त्वचा और बाल

त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है।



मुख्य घटक

Noni

इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है।
डाइजेशन सुधारता है और शरीर को डिटॉक्स करता है।

Gojiberry

इम्युनिटी और आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद।
एंटी-एजिंग गुण होते हैं।

Cherry

सूजन कम करता है और नींद बेहतर बनाता है।
दिल और जोड़ों के लिए फायदेमंद।

Cranberry

यूरिन इन्फेक्शन से बचाव करता है।
डाइजेशन और इम्युनिटी में मदद करता है।

Roseberry

त्वचा के लिए अच्छा और विटामिन C से भरपूर।
इम्युनिटी बढ़ाता है।

Acaiberry

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, त्वचा और दिल के लिए अच्छा।
ऊर्जा बढ़ाता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है।

Blueberry

ब्रेन हेल्थ और मेमोरी के लिए अच्छा।
दिल को स्वस्थ रखता है।

Amla Pulp

विटामिन C का अच्छा स्रोत, इम्युनिटी बढ़ाता है।
बाल और आंखों के लिए लाभदायक।



🍓 Strawberry

त्वचा चमकदार बनाता है और दिल के लिए अच्छा।
वजन कम करने में मदद करता है।

🍇 Blackberry

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है।
इम्युनिटी और डाइजेशन सुधारता है।

🐉 Dragon Fruit

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है।
दिल और पाचन के लिए अच्छा।

🌿 Moringa

सुपरफूड है, शरीर को ताकत देता है।
हड्डियों और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद।

🌿 Triphala

डाइजेशन सुधारता है और पेट साफ रखता है।
शरीर को डिटॉक्स करता है।

🌿 Stevia Leaf

नेचुरल स्वीटनर है, शुगर के मरीजों के लिए अच्छा।
कैलोरी कम होती है।

🌿 Kalonji Oil

इम्युनिटी बढ़ाता है और सूजन कम करता है।
त्वचा और बालों के लिए अच्छा।

🍯 Honey

ऊर्जा बढ़ाता है और गले के लिए अच्छा।
इम्युनिटी मजबूत करता है।



🌿 Ashwagandha

तनाव कम करता है और ताकत बढ़ाता है।
नींद और मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है।

🍎 Pomegranate

खून बढ़ाता है और दिल के लिए अच्छा।
त्वचा को स्वस्थ रखता है।

🍇 Black Grapes

दिल और त्वचा के लिए अच्छा।
ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है।

🍆 Mangosteen

इम्युनिटी और त्वचा के लिए अच्छा।
सूजन कम करता है।

🥕 Carrot

आंखों के लिए बहुत अच्छा।
त्वचा और इम्युनिटी सुधारता है।

🍍 Pineapple

डाइजेशन में मदद करता है।
सूजन कम करता है।

🌾 Wheatgrass

शरीर को डिटॉक्स करता है।
खून साफ करता है।

🍊 Orange Pulp

विटामिन C से भरपूर, इम्युनिटी बढ़ाता है।
त्वचा और पाचन के लिए अच्छा।

🌿 Turmeric

एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्युनिटी बढ़ाता है।
घाव भरने में मदद करता है।

🥬 Cabbage

डाइजेशन और वजन कम करने में मदद करता है।
इम्युनिटी बढ़ाता है।

🍐 Pear

डाइजेशन सुधारता है और फाइबर से भरपूर।
दिल के लिए अच्छा।

🍵 Green Tea

वजन कम करने में मदद करता है।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर।

🍅 Tomato

त्वचा और दिल के लिए फायदेमंद।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर।



🌿 Spinach
आयरन से भरपूर, खून बढ़ाता है।
हड्डियों के लिए अच्छा।

🥦 Cauliflower
डाइजेशन और इम्युनिटी के लिए अच्छा।
वजन कंट्रोल में मदद करता है।

🥦 Broccoli
कैंसर से बचाव में मदद करता है।
इम्युनिटी बढ़ाता है।

🥝 Kiwi
विटामिन C से भरपूर, इम्युनिटी बढ़ाता है।
त्वचा के लिए अच्छा।

🥒 Papaya
डाइजेशन सुधारता है।
त्वचा और पेट के लिए अच्छा।

🌿 Spirulina
प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर।
इम्युनिटी और ऊर्जा बढ़ाता है।

🍏 Green Apple
वजन कम करने में मदद करता है।
डाइजेशन और त्वचा के लिए अच्छा।

🌿 Mulethi
गले के लिए बहुत फायदेमंद।
खांसी में राहत देता है।

🌿 Aloe Vera
त्वचा और पाचन के लिए अच्छा।
डिटॉक्स करता है।

🍌 Banana
ऊर्जा का अच्छा स्रोत।
पाचन और मांसपेशियों के लिए अच्छा।

🍋 Kokum
डाइजेशन सुधारता है और शरीर को ठंडक देता है।
वजन कंट्रोल में मदद करता है।

🥕 Beetroot
खून बढ़ाता है और एनर्जी देता है।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है।




यह कैसे काम करता है

(How It Works)



पोषक तत्वों की
कमी को पूरा करता है



शरीर की कोशिकाओं
को रिपेयर करता है



इम्युनिटी सिस्टम को
एक्टिव करता है



टॉक्सिन्स को
बाहर निकालता है



इसका नियमित सेवन शरीर को अंदर से
संतुलित और मजबूत बनाता है।

सेवन करने का तरीका (Dosage & Usage)

- सुबह खाली पेट 15–30 ml
- या दिन में 2 बार (सुबह-शाम)
- 1 गिलास पानी में मिलाकर लें
- बेहतर परिणाम के लिए 3–6 महीने नियमित सेवन करें

किसके लिए उपयोगी

- इम्युनिटी कमजोर लोग
- बार-बार बीमार होने वाले
- बिज़ी प्रोफेशनल्स
- स्टूडेंट्स
- बुजुर्ग
- फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस लोग



सावधानियाँ



- यह एक हेल्थ सपोर्ट प्रोडक्ट है, दवा नहीं



- गर्भवती महिलायें डॉक्टर से सलाह लें



- अधिक मात्रा में सेवन न करें



- ठंडी और सूखी जगह पर रखें

क्यों चुनें जीवन अमृत जूस?



30+
प्राकृतिक तत्वों का
शक्तिशाली मिश्रण



संपूर्ण शरीर के लिए
360°
समोर्ट



बिना साइड इफेक्ट के
प्राकृतिक समाधान



आसान और
सुरक्षित उपयोग

